



## কোলকাতা মেঁ সাহিত্য অকাদেমী কে পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র ও নবীনীকৃত সভাগার কা উদ্ঘাটন

### কাব্য সংধ্যা মেঁ শামিল হুএ প্রখ্যাত কবি

কোলকাতা (রজত বংশল): সাহিত্য অকাদেমী কে কোলকাতা ক্ষেত্রীয় কার্যালয় কে পরিসর মেঁ এক নেও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র ও  
নবীনীকৃত সভাগার কা উদ্ঘাটন কিয়া গয়া হৈ। ইসকা উদ্ঘাটন সাহিত্য অকাদেমী কে অধ্যক্ষ ডো. মাধব কৌশিক ও বাহুল্য  
পরামর্শ মণ্ডল কে সংযোজক পঞ্জিম বংগাল কে শিক্ষা মংত্রী ব্রাত্য বসু নে কিয়া। ইস অবসর পর আয়োজিত সভা মেঁ অতিথিয়ো কা  
স্বাগত অকাদেমী কে সচিব ডো. কে. শ্রীনিবাসরাব নে কিয়া। অপনে স্বাগত ভাষণ মেঁ উন্হোনে কহা কি লংবে সময় সে পাঠক  
কোলকাতা কার্যালয় পরিসর মেঁ পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র কী স্থাপনা কী মাংগ কর রহে থে। বহু আজ পূরী হো গই হৈ। ইসসে পাঠকো ঔর  
শৌধকর্তাো কী লাভ মিলেগা। যহো অকাদেমী দ্বাৰা 24 ভাষাও মেঁ প্ৰকাশিত পুস্তকে উপলব্ধ হোগৈ। উন্হোনে বতায়া কি পুৱানে  
সভাগার কে নবীনীকৰণ সে সারস্বত কার্যকৰ্মো কে আয়োজন মেঁ মদদ মিলেগৈ। সাহিত্য অকাদেমী কে অধ্যক্ষ ডো. মাধব কৌশিক নে  
অপনে ভাষণ মেঁ কহা কি পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র এক বীদ্বিক সংপদা হৈ। কোলকাতা সাহিত্য ঔর সংস্কৃতি কা কেন্দ্ৰ হৈ। যহু পুস্তক  
বিক্ৰী কেন্দ্র ঔর নবনিৰ্মিত সভাগার যহো কী সারস্বত প্ৰৱৃত্তি ঔর পূৰী ক্ষেত্ৰ কে সাহিত্য কো আগে বদানে মেঁ মহাত্মপূৰ্ণ ভূমিকা  
নিভাএগা। অকাদেমী কে বাহুল্য পরামর্শ মণ্ডল কে সংযোজক শ্রী বসু নে কহা কি পঞ্জিম বংগাল নে হুমেশা অপনী বহুভাষী পৰংপৰা কো  
মান্যতা দী হৈ। যহু পুস্তক বিক্ৰী কেন্দ্র পূৰ্বী ক্ষেত্ৰ কী বিভিন্ন ভাষাও কী পুস্তকো কো লোগো তক পৰুুঁচানে কা কাম কৰেগা। উন্হোনে  
বতায়া কি পিছলে তীন বৰ্ষো মেঁ অকাদেমী নে বিভিন্ন কাৰ্যকৰ্ম আয়োজিত কিএ হৈ ঔর কৰ্দৈ বহুমূল্য পুস্তকো কা প্ৰকাশন কিয়া হৈ।  
অন্য মেহমান সুবোধ সৱকাৰ নে পুস্তক বিক্ৰী কেন্দ্র ঔর সভাগার কে নিৰ্মাণ কে লিএ অকাদেমী কো ধন্যবাদ দিয়া। সমাৰোহ কা  
সংচালন সাহিত্য অকাদেমী কোলকাতা কার্যালয় কে প্ৰভাৱী অধিকাৰী ক্ষেত্ৰবাসী নায়ক নে কিয়া। ইসকে বাদ দিশে কাব্য সংধ্যা  
কাৰ্যকৰ্ম কো আয়োজন কিয়া গয়া। ইসকী অধ্যক্ষতা প্ৰখ্যাত কবি সুবোধ সৱকাৰ নে কী। কবি অৰ্নব সাহা, বিভাস রোয় চৌধুৰী,  
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়, নিৰ্মাল্য মুখোপাধ্যায় ঔর শিবাশীষ মুখোপাধ্যায় নে কবিতাও কা পাঠ কিয়া। কবিতাও মেঁ বিভিন্ন  
সমসাময়িক বিত্ৰ, ঘটনাএঁ ঔর মানবীয় মূল্য কে স্বৰ গুৰীঁ। অত মেঁ মাধব কৌশিক কী গৱৰ্জন ঔর সুবোধ সৱকাৰ কী কবিতা নে  
শ্ৰোতাো কো মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰ দিয়া। কাৰ্যকৰ্ম কী শুৰুআত মেঁ কবিয়ো কো অকাদেমী কে সচিব ডো. কে. শ্রীনিবাসরাব নে সম্মানিত  
কিয়া। কাৰ্যকৰ্ম মেঁ বড়ী সংখ্যা মেঁ লেখক ঔর সাহিত্যকাৰ শামিল হুএ।